

प्रेषक,

दीपक कुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,

इरला चैक,

उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून दिनांक: 19 सितम्बर, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0डी0ए0 के पत्र संख्या-446/ITDA-2/2016-17 दिनांक 17.08.2016 एवं पत्र संख्या-487/ITDA-2/2016-17 दिनांक 27.08.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत आई0टी0डी0ए0 के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 03- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि रु0 107.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या- 220/XXXIV/2016-15/2011 के द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0 35.67 लाख के कम में शेष उपलब्ध धनराशि रु0 71.33 लाख (रु0 इकहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटन आई0डी0. H1609231059 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निदेशक आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय मासिक आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधन) नियमावली-2015 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जायेगी।
4. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाय।
6. आवंटित धनराशि के विपरीत कार्य/मदवार वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराते हुये जारी की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2017 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।

संलग्नक- आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(दीपक कुमार)

सचिव।

संख्या:- 353/XXXIV/2016-15/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड देहरादून
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 देहरादून ।
3. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड (साइबर ट्रैजरी) 23 लक्ष्मी रोड देहरादून
4. सचिवालय प्रशासन लेखा, उत्तराखण्ड शासन ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- ✓ 6. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
7. वित्त अनुभाग-2 ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Information & Technology (S062)

आवंटन पत्र संख्या - 345/XXXIV/2016-15/2011

अनुदान संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - S1609230236

आवंटन पत्र दिनांक -15-Sep-2016

HOD Name - Secretary, IT (9017)

1: लेखा शीर्षक	3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	60 - अन्य
	800 - अन्य व्यय	
	03 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	
	00 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	1167000	2333000	3500000
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	2400000	4800000	7200000
	3567000	7133000	10700000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

7133000

(सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी)
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
राज्य सूचना प्रौद्योगिकी
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, IT (9017)

आवंटन पत्र संख्या - 345/XXXIV/2016-15/2011

अलोटमेंट आई डी - H1609231059

अनुदान संख्या - 023

आवंटन पत्र दिनांक -15-Sep-2016

DDO Name - Finance Officer IRLADehradun (4651) , Treasury - Cyber (1200)

1: लेखा शीर्षक	3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	60 - अन्य
	800 - अन्य व्यय	
	03 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	
	00 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	1167000	2333000	3500000
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	2400000	4800000	7200000
	3567000	7133000	10700000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

7133000

(सहसंचालक (सिआ)
सूचना प्रौद्योगिकी,
सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तराखण्ड सरकार)

